

कार्यालय-ज्ञाप

निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के संबंध में रोगी के परिवारजनों को उपचार के उपरान्त, उपचार संबंधी "चिकित्सकीय जांचों एवं संबंधित चिकित्सकीय अभिलेख" उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-11289/13 समीर कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-7157/14 श्रीमती विमला देवी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को आदेश निर्गत किया गया है।

2- मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.09.2014 के अनुपालन में नैदानिक स्थापनों के संचालन के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: डब्लू-233/71-2-14-रिट-122 /2014, दिनांक 16.10.2014 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- इस सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-7157/14 श्रीमती विमला देवी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2014 के अनुपालन में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया निम्नानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1. All clinical establishments as defined by the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 including nursing homes, medical professionals, private and Government sponsored hospital of the names whatsoever may be, and SGPGI, University (State/Central), medical colleges shall provide the copy of medical records to the patients or their attendants as the case may be at the time of discharge from their respective clinical establishments.
2. The medical professionals as well as competent authority of the clinical establishment shall maintain the standard of their clinical establishment with hygienic condition in accordance with the standard prescribed by the Medical Council of India or other medical councils or authority.
3. Medical record shall be supplied by all allopathic, Ayurved, Homeopath, Unani etc. clinical establishment, under names and designations whatsoever may be.
4. The prescription memo of medical professionals or the admission form as the case may be, shall contain a caption, "You are entitled for copy of medical records at the time of discharge/ end of treatment."
5. No clinical establishment shall work unless they are registered with the State Government by an authority provided for the purpose or Chief Medical Officer of the district concerned as the case may be. In any case, for any compelling reasons, the medical records are not provided at the time of discharge, then it shall be provided within 72 hours as provided by the Regulation 1.3 of the Regulations (supra) framed by the Medical Council of India.
6. The option be given for online registration and name of all clinical establishments and medical professionals of whatsoever branch may be, shall be placed on website so that peoples may have access to it. The registration should be done at reasonable fees.

Let the registration of all clinical establishments be completed expeditiously say, within four months from the date of issuance of Government orders/circular.